

Title: Introduction of the Public Employment (Recruitment) Bill, 2000.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : स्भापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक नियोजन में भर्ती का विनियमन तथा उससे संसक्त वियों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for regulation of recruitment in the public employment and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : स्भापति महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित भी करता हूं।

*Published in the Gazettee of India Extraordinary PartII- Section 2, dated 5.5.2000

-

15.08 hrs.